

निर्देश :

1. इस प्रश्न-पत्र के चार खंड हैं - क, ख, ग और घ।
2. चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
3. यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए।

खंड - क

प्रश्न 1. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1 x 5 = 5

मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए उसे अपने सुख-दुख को कहने-सुनने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग लेने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह दिल खोलकर अपनी सब बातें कर सके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। मित्र का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। कुछ लोग किसी की बाहरी चमक-दमक, बोल-चाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। सच्चे मित्र का चयन करने के लिए उसके व्यवहार, आचरण तथा चरित्र पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सच्चा मित्र विश्वासपात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होता है।

- (क) मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है?
- (ख) व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
- (ग) किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है?
- (घ) सच्चे मित्र में कौन-कौन से गुण होने चाहिए?
- (ङ) उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए।

प्रश्न 2. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1 x 5 = 5

पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊँचे बन जाओ

सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ।

समझ रहे हो क्या कहती है, उठ-उठ, गिर-गिर तरल तरंग

भर लो, भर लो अपने मन में मीठी-मीठी मृदुल उमंग।

पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही सिर पर हो भार

नभ कहता है फैलो इतना, ढँक लो तुम सारा संसार।

क) कौन कहता है - “फैलो इतना, ढँक लो तुम सारा संसार”?

ख) पर्वत क्या कहता है?

ग) गिरि, पहाड़, अचल किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं?

घ) इन में से किस शब्द का अर्थ ‘कोमल’ है?

(i) शीश (ii) मृदुल (iii) धैर्य (iv) तरंग

ड) पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं?

खंड - ख

प्रश्न 3. i) निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनाइए : 1x2 = 2

क) थकना

ख) पिसना

ii) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची लिखिए : 1 x 4 = 4

पक्षी

घर

इच्छा

घमंड

iii) निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए : 1 x 2 = 2

क) बच्चे को काटकर सेब खिलाओ।

ख) सारे देश भर में बात फैल गई।

- iv) निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पहचानिए : $1 \times 2 = 2$
क) कथाकार
ख) जलन
- v) निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए : $1 \times 3 = 3$
क) मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी।
ख) यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे।
ग) जो करेगा सो भरेगा।
- vi) निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए : $1 \times 3 = 3$
क) वसंत
ख) विरोध
ग) आरंभ
- vii) संधि विच्छेद कीजिए : $1 \times 2 = 2$
क) पुरस्कार
ख) देहांत
- viii) निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों भेद पहचानिए : $1 \times 2 = 2$
क) इस साल अधिक वर्षा हुई।
ख) यह पुस्तक मेरी है
- ix) नीचे दिए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए : $1 \times 2 = 2$
क) दान - आ + दान =
ख) राग - अनु + राग =
- x) किन्हीं तीन मुहावरों के अर्थ लिखिए : $1 \times 3 = 3$
क) आकाश पाताल एक करना
ख) कलई खलना

- ग) खरी खोटी सुनाना
घ) पहाड़ टूटना

खंड - ग

प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : $2 \times 4 = 8$

1. पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई?
2. लाखों-करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी?

प्रश्न 5. किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखो : $3 \times 3 = 9$

1. 'कुछ खास तो नहीं'- हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ?
2. क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गाँवों या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखो।
3. आश्रम में गाँधी जी कई ऐसे काम भी करते थे, जिन्हें आमतौर पर नौकर-चाकर करते हैं। पाठ से तीन अलग-अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हों।
4. लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की?
5. बाँस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी?

प्रश्न 6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : $2 \times 4 = 8$

1. कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है?
2. कविता में किसके आँचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों?
3. राम बैठकर देर तक काँटे क्यों निकालते रहे?
4. 'धरि धीर दए' का आशय क्या है?

प्रश्न 7. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए : 1x5=5

- क) बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने कौन-सी कहानी सुनी है?
- ख) 'प्रकृति का जादू' किसे कहा गया है?
- ग) कविता में 'ऐसी बड़ी न होऊँ मैं' क्यों कहा गया है?
- घ) नारियों के गीतों की क्या विशेषता है?
- ङ) आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गाँधी जी ने कौन-सा काम करवाया?
- च) नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई?
- छ) बाँस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है?
- ज) 'लक्ष्मीबाई अपने-आप में स्मारक थी' - ऐसा क्यों कहा गया है?

प्रश्न 8. दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए : 1 x 5 = 5

असम में ऐसे ही एक जाल, जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे-धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चियों को इस तरह बाँधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक-दूसरे में गुँथी हुई होती हैं।

1. उपर्युक्त गद्यांश कौन-से पाठ से लिया गया है?

- क) वन के मार्ग में
- ख) बाँस की कहानी
- ग) संसार पुस्तक है
- घ) साँस साँस में बाँस

2. मछली किससे पकड़ी जाती है?

- क) काँटे
- ख) जकाई
- ग) छलनी
- घ) इनमें से कोई नहीं

3. उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रदेश की बात की गई है?

- क) असम
- ख) बंगाल
- ग) त्रिप्रा
- घ) इनमें से कोई नहीं

4. बाँस की खपच्चियों को किस प्रकार बाँधा जाता है?
क) शंकु के आकार में ख) त्रिशंकु ग) गोल घ) चौकोन

5. 'मछली' शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द दें।
क) मत्स्य, मीन ख) जलचर, उभयचर
ग) मीनाक्षी, मत्स्यकी घ) मत्स्यगंधा, मासली

प्रश्न 9. दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छाँटकर लिखिए : 1 x 5 = 5

मैं सबसे छोटी होऊँ,
तेरी गोदी में सौँऊँ,
तेरा अंचल पकड़-पकड़कर
फिरूँ सदा माँ ! तेरे साथ,
कभी न छोड़ूँ तेरा हाथ!
बड़ा बनाकर पहले हमको
तू पीछे छलती है मात!
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे
साथ नहीं फिरती दिन-रात
अपने कर से खिला, धुलामुख,
धुल पौँछ, सज्जित कर गात
थमा खिलौने, नहीं सुनाती
हमें सुखद परियों की बात!

1. मैं सबसे छोटी होऊँ, से कवि क्या कहना चाह रहे हैं?
क) हमेशा अपनी माँ का साथ पाने की लालसा
ख) हर-समय खेलते रहने की कामना
ग) उधम-मस्ती की अभिलाषा
घ) इनमें से कोई नहीं

2. उपर्युक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है?
- क) पिता-पुत्र
ख) माँ-बेटी
ग) माता-बहन
घ) बहन-बेटी
3. 'बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात !' से क्या तात्पर्य है?
- क) उससे दूर जाती है
ख) पाल-पोसकर माँ फिर साथ छोड़ देती है
ग) साथ माँगती है
घ) उससे काम करवाती है
4. 'सदा' शब्द के समान अर्थ बताइए।
- क) बराबर, एकदम
ख) हरदम, एक-साथ
ग) हमेशा, निरंतर
घ) उपर्युक्त सभी
5. 'सज्जित' शब्द में कौन-सा प्रत्यय है?
- क) इत ख) ईत ग) इट घ) जित

खंड - घ

प्रश्न 10. 'महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं' इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए : 5

प्रश्न 11. विद्यालय की शैक्षिक यात्रा का वर्णन करते हुए माताजी को पत्र लिखें। 5

प्रश्न 12. दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए।

5



evidyarthi